



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1936 (श0)
(सं0 पटना 1035) पटना, बुधवार, 17 दिसम्बर 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्
विद्यापति मार्ग, पटना — 800001

अधिसूचना
18 सितम्बर 2014

सं0 838—सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली स्थित श्री मानिक राम बैजनाथ बजाज धर्मशाला पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 4163 है। इस न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सुव्यवस्था के लिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के तहत एक योजना का निरूपण करते हुये पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापक 1290 दिनांक 08.09.2009 द्वारा नौ सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए निर्धारित था। बाद में पर्षदीय पत्रांक 1744 दिनांक 10.11.2009 द्वारा दो और सदस्यों का नाम न्यास समिति में जोड़ा गया। न्यास समिति के कार्यकाल का अवसान दिनांक 07.09.2014 को हो चुका है। अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल द्वारा पत्रांक 1401-2/सपत्र दिनांक 16.06.2014 के माध्यम से नवीन न्यास समिति के लिये सदस्यों का नाम भेजा गया है। इसके आलोक में न्यास के सुचारु प्रबंधन हेतु एक नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए और सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली स्थित श्री मानिक राम बैजनाथ बजाज धर्मशाला की चल एवं अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुप्रबंधन एवं सर्वांगीण विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है, तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया गया।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री मानिक राम बैजनाथ बजाज धर्मशाला, न्यास योजना निर्मली, सुपौल होगी” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री मानिक राम बैजनाथ बजाज धर्मशाला, न्यास समिति निर्मली, सुपौल होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
 9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
 10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
 12. इस न्यास समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी। यह दिनांक 25.09.2014 से प्रभावी होगा।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	श्री अभिषेक कुमार पंसारी, पे0 श्री विष्णु कुमार पंसारी वार्ड नं0 11, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	अध्यक्ष
(2)	श्री दिनेश कुमार शर्मा, पे0 स्व0 हरि प्रसाद शर्मा वार्ड नं0 10, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	उपाध्यक्ष
(3)	श्री अशोक कुमार साह, पे0 स्व0 जगन्नाथ साह वार्ड नं0 10, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	सचिव
(4)	श्री प्रो0 धीरेंद्र कुमार राय, पे0 स्व0 विशेष्वर राय वार्ड नं0 10, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	कोषाध्यक्ष
(5)	श्री दीपक कुमार पंसारी पे0 स्व0 बजरंग प्रसाद पंसारी वार्ड नं0 11, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	सह सचिव
(6)	श्री निधान कुमार टोंटिया, पे0 स्व0 दिलीप कुमार टोंटिया वार्ड नं0 4, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	सदस्य
(7)	श्री विनोद महतो, पे0 श्री रामसेवक महतो, वार्ड नं0 11, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	सदस्य
(8)	श्री विनित शेखर, पे0 श्री डा0 अशोक शेखर, वार्ड नं0 6, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	सदस्य
(9)	श्री विष्णु कुमार चौधरी, पे0 स्व0 किशन लाल चौधरी, वार्ड नं0 11, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	सदस्य
(10)	श्रीमती यमुना देवी, जौजे श्री गुरुदयाल भ्रमर, वार्ड नं0 1, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	सदस्य
(11)	श्री तेजनारायण साह, पे0 स्व0 भगवान दत्त साह, वार्ड नं0 9, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल-847452	—	सदस्य।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1035-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>